

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड— लो०नि०वि०  
हरदोई

पंत्राक 268 / 18 सी

दिनांक 16 / 02 / 2022

प्रमाणित किया जाता है कि डा० बी० आ० अम्बेडकर एजूकेशनल एण्ड वेलफेर  
सोसइटी द्वारा संचालित नन्द रानी कालिज ऑफ फॉर्मेसी 74, उत्तरी आलूथोक भट्ठापुरवा  
जिला—हरदोई भवन का निरक्षण दिनॉक 08 / 02 / 2022को किया गया। निर्मित/प्रस्तावित  
भवन बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार है तथा सम्पूर्ण भवन भूकंपरोधी है, उक्त भवन  
भुकम्प जोन 4 व 5 के अन्तर्गत नहीं आता है। भवन प्रथम दृटया सुरक्षित एवं मजबूत  
प्रतीत होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड –2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या  
सलंगन है।

संलग्नक — चैकलिस्ट

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
हरदोई

नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के अनुसार भवन की चेकलिस्ट

**विद्यलायों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट**

**(ग) महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु चेकलिस्ट**

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिंदु	जाँच आव्याह
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला है	हॉ
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.50 है (5000 वर्ग मी०)	हॉ
3	क्या भवन में पार्किंग के लिये समुचित व्यस्था है ।	हॉ
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐस है कि पर्याप्त विकास एवं हवा का सर्कुलेशन है ।	हॉ
5	क्या मुख्य पंहुच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ।	हॉ
6	क्या भवन का छत आर०सी०सी० की बनी है। यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में तो नहीं लायी गयी है ।	हॉ
7	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसालें से बनी हैं ।	हॉ
8	क्या भवन की दीवारें /छतों में क्रैंक हैं ।	नही
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी० है)	हॉ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (वाउण्ड्री वाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है ।	हॉ
11	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल 1.0 प्रतिशत है। खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है ।	हॉ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ।	हॉ
13	क्या कक्षा की दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊंचाई 2.0 मी० है)	हॉ

14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जाने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ड्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ।	हॉ
15	क्या भवन का कक्षों में जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ।	हॉ
16	क्या भवन में रसोईघर भवन से अलग है ।	नही
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ।	हॉ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे है ।	हॉ
19	क्या भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है ।	हॉ
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन(11,000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मीटर है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है ।	हॉ
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इकिवपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये है ।	हॉ

प्रमाणित किया जाता है की नन्द रानी कालिज ऑफ फॉर्मसी 74, उत्तरी आलूथोक भट्ठापुरवा जिला—हरदोई भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओ के अधीन निर्मित है ।

  
 अधिकारीक अभियंता ।  
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि० ।  
 हरदोई